

वित्तीय और निवेश कंपनियों का कार्यानिष्पादन, 2011-12*

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए चयनित 1,342 गैर-सरकारी वित्तीय और निवेश कंपनियों के वित्तीय कार्यानिष्पादन का उनके लेखा-परीक्षित वार्षिक खातों के आधार पर विश्लेषण करने से विदित हुआ कि चूँकि वर्ष 2011-12 के दौरान वित्तीय आय में वृद्धि में सुधार आया, अतः व्यय में वृद्धि भी पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतर रही। परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कंपनियों के परिचालन लाभों (ईबीडीटी) एवं निवल लाभों में कमी आई। देयताओं के प्रमुख भाग के रूप में उधार राशियों का अंश 5-वर्षीय अवधि में बढ़ा है, जबकि आस्तियों की ओर ऋणों और अग्रिमों के अंश में वृद्धि हुई। विस्तार के लिए, प्रधानतः अपने ऋण संविभाग में बढ़ोतरी के लिए कंपनियाँ मुख्य रूप से बाह्य स्रोतों पर (आंतरिक उपचयों को छोड़कर) लगातार निर्भर रहीं।

इस आलेख में अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान अपने खाते बंद कर चुकी 1,342 कंपनियों के लेखा-परीक्षित वार्षिक खातों के आधार पर वर्ष 2011-12 के दौरान गैर-सरकारी वित्तीय और निवेश कंपनियों (बैंकिंग, बीमा और चिटफंड कंपनियों को छोड़कर) का कार्यानिष्पादन प्रस्तुत किया गया है। इसमें पाँच वर्ष की अवधि अर्थात् 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के लिए संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए संकलित और पूर्व में प्रकाशित डेटा के आधार पर एक तुलनात्मक स्थिति भी प्रस्तुत की गई है। 2011-12 के लिए विस्तृत डेटा व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। चयनित 1,342 कंपनियाँ 31 मार्च 2012 की स्थिति के

* सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग के कंपनी वित्त प्रभाग द्वारा तैयार किया गया। पिछला अध्ययन भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के अक्टूबर 2012 अंक में प्रकाशित किया गया था। जिसके अंतर्गत 2010-11 के दौरान 1,340 गैर-सरकारी वित्तीय और निवेश कंपनियों को शामिल किया गया। वर्तमान अध्ययन में पिछले अध्ययन में शामिल की गई 930 समान कंपनियों के अतिरिक्त 412 नई कंपनियाँ समाविष्ट की गई हैं।

¹ उन कंपनियों के मामले में जिन्होंने अपने लेखा-वर्ष को या तो बढ़ाया या घटाया, आय, व्यय और विनियोजन के आंकड़े वार्षिकीकृत किये गये हैं। तथापि, तुलना-पत्र संबंधी आंकड़े कंपनियों के वार्षिक खातों में प्रस्तुत रूप में रखे गये हैं। वर्ष के लिए वित्तीय कार्यानिष्पादन का विश्लेषण इस परिसीमा के अधीन है।

अनुसार सभी गैर-सरकारी वित्तीय और निवेश कंपनियों की पाँपुलेशन चुकता पूँजी (पीयूसी) का 43.7 प्रतिशत (कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपूर्ति किया गया अनंतिम अनुमान) होती है।

वित्तीय और निवेश कंपनियों को पाँच समूहों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् (1) शेयर व्यापार और निवेश धारण, (2) ऋण वित्त, (3) आस्ति वित्त, (4) विविधीकृत और (5) विविध। किसी कंपनी को पहले तीन प्रधान कार्यकलापों के समूहों में से किसी एक समूह में रखा गया यदि अध्ययन वर्ष 2011-12 के दौरान उसकी वार्षिक आय का कम से कम आधा भाग आय उत्पन्न करनेवाली आस्तियों के अनुरूप उस प्रधान कार्यकलाप से व्युत्पन्न किया गया हो। यदि कोई एक प्रधान कार्यकलाप प्रमुख नहीं था, तो ऐसी कंपनी को 'विविधीकृत' समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। ऐसी कंपनियों को जो उपर्युक्त तीनों में से किसी भी कार्यकलाप में लिप्त नहीं हैं, लेकिन वित्तीय कार्यकलाप² संचालित कर रही हैं, 'विविध' समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। यह पाया गया कि 'शेयर व्यापार और निवेश धारण' कंपनियाँ संख्या के तौर पर नमूने में प्रधान स्थान पर हैं जिनके बाद 'ऋण वित्त' कंपनियाँ आती हैं (सारणी 1)। तथापि, 'ऋण वित्त' कंपनियाँ वित्तीय मानदंडों के तौर पर प्रधान हैं।

1. उच्चतर ब्याज दर ने आय में उच्चतर संवृद्धि को प्रेरित किया, परंतु लाभ में वृद्धि को क्षति हुई

संकट के बाद की अवधि में वित्तीय और निवेश कंपनियों के कार्यानिष्पादन को क्षति पहुँची। आय में वृद्धि 2007-08 में विद्यमान 52.9 प्रतिशत से घटकर अनुवर्ती वर्ष में कुछ समुत्थान से पहले 2009-10 में 10.0 प्रतिशत हो गई (विवरण 1 और चार्ट 1)। तथापि, निम्नतर आय वृद्धि ब्याज और स्टाफ व्ययों में निम्नतर वृद्धि द्वारा संतुलित की गई। इसके परिणामस्वरूप 2009-10 और 2010-11 में लाभों ने एक प्रभावी वृद्धि दर्ज की। यह स्थिति 2011-12 में कुछ सीमा तक उलट गई।

चयनित 1,342 वित्तीय और निवेश कंपनियों की वित्तीय आय 2011-12 में 29.5 प्रतिशत बढ़ी जो संकट के बाद की अवधि में उच्चतम थी। यह वर्ष के दौरान इन कंपनियों के लिए

² जो कंपनियाँ वित्तीय परामर्श सेवाओं, निधि प्रबंधन सेवाओं, संविभाग प्रबंध सेवाओं आदि में लिप्त हैं, उन्हें भी 'विविध' समूह में शामिल किया गया है।

सारणी 1: कार्यकलाप द्वारा चयनित कंपनियों की संरचना - 2010-11 और 2011-12

(प्रतिशत)

कार्यकलाप	कंपनियों की संख्या		चुक्ता पूँजी		वित्तीय आय		कुल निवल आस्तियाँ	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
	1	2	3	4	5	6	7	8
शेयर व्यापार और निवेश धारण	45.1	43.9	26.6	32.3	13.8	16.1	15.1	18.9
ऋण वित्त	34.0	37.9	57.5	55.9	61.2	66.9	68.9	71.8
आस्तित्व वित्त	5.8	3.9	1.7	0.8	10.7	7.9	9.5	5.8
विविधकृत	1.1	1.1	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
विविध	14.0	13.3	13.7	10.8	13.9	8.9	6.2	3.4
सभी कार्यकलाप	100.0 (1,340)	100.0 (1,342)	100.0 (367)	100.0 (347)	100.0 (513)	100 (528)	100 (4,408)	100 (4,115)


टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े संबंधित स्तंभों के अंतर्गत कुल जोड़ को दर्शाते हैं (राशि बिलियन रुपये में)।

ब्याज आय में बहुत अधिक वृद्धि के कारण थी (पिछले वर्ष में विद्यमान 36.2 प्रतिशत की तुलना में 51.0 प्रतिशत)। वित्तेतर आय के साथ 2011-12 के दौरान कुल आय में 29.1 प्रतिशत वृद्धि हुई। तथापि, कुल व्यय 2011-12 में 37.9 प्रतिशत की उच्चतर दर पर बढ़ा क्योंकि कर्मचारियों के पारिश्रमिक (16.4 प्रतिशत) सहित ब्याज व्ययों ने तीव्र वृद्धि (66.2 प्रतिशत) दर्ज की। इस प्रकार चयनित कंपनियों के परिचालन लाभों में संवृद्धि 2011-12 में नीचे आई।

कुल आय में वित्तीय और निवेश कंपनियों की ब्याज आय का भाग 2007-08 से 2011-12 तक 5-वर्षीय अवधि में लगातार बढ़ा है जबकि दलाली से आय और शेयरों में लेनदेन

से आय के भाग घट गए हैं (सारणी 2)। व्यय की ओर, ब्याज व्यय के अंश में वृद्धि हुई।

चयनित कंपनियों की वित्तीय आय की तुलना में परिचालन लाभों के अनुपात के रूप में मापित परिचालन लाभ मार्जिन 2010-11 में विद्यमान 33.4 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 28.5 प्रतिशत हो गया (विवरण 2)। चयनित कंपनियों के शेयरधारकों की ईक्विटी पर प्रतिलाभ (निवल मालियत की तुलना में निवल लाभों का अनुपात) भी 2011-12 में घटकर 7.9 प्रतिशत हुआ। इसी प्रकार आस्तियों पर प्रतिलाभ (कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल लाभों का अनुपात) पिछले पाँच वर्षों में अपने निम्नतम स्तर तक पहुँचा। यह पाया गया है कि चयनित कंपनियों का लाभांश भुगतान अनुपात (निवल



**सारणी 2: कुल आय में आय/व्यय के घटकों के अंश :
2007-08 से 2011-12 तक**

(प्रतिशत)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	1	2	3	4	5
आय के घटक					
ब्याज आय	31.6	49.2	52.3	61.5	65.1
लाभांश आय	4.6	3.6	3.0	3.7	3.8
दलाली से आय	12.5	2.4	7.7	7.2	4.9
शेयरों के लेनदेन में निवल लाभ/हानि	17.4	10.6	10.5	7.0	4.6
किराया खरीद वित्तपोषण से निवल अर्जन	1.0	5.0	3.8	6.4	6.1
पट्टा किराया	1.8	2.3	1.7	3.4	3.7
अन्य*	31.1	26.9	21.0	10.8	11.8
व्यय के घटक					
कुल व्यय	64.5	72.7	69.2	68.0	73.1
ब्याज व्यय	27.5	41.2	36.9	36.7	40.2
कर्मचारियों का पारिश्रमिक	9.7	7.5	10.0	10.1	10.6
प्रबंधकीय पारिश्रमिक	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2
अशोध्य कर्ज	4.2	5.3	4.8	2.0	2.0
अन्य व्यय	19.9	15.3	14.1	15.6	16.7
मूल्यहास प्रावधान	1.7	1.4	1.5	1.5	1.9
अन्य प्रावधान	1.0	1.6	1.6	1.7	1.6


* बिल भुनाई और व्यापार बैंकिंग कार्यकलापों से आय, अन्य वित्तीय आय, विन्नेतर आय और परिचालनेतर अधिशेष/कमी सहित।

लाभों की तुलना में प्रदत्त लाभांशों का अनुपात) वर्षों से बढ़ा है (2011-12 में 28.4 प्रतिशत), जो निम्नतर प्रतिधारित लाभों के रूप में परिणत हुआ।

अधिकांश कार्यकलाप समूहों में स्थित कंपनियों की परिचालन लाभ वृद्धि 2011-12 में निम्नतर थी। शेयर व्यापार कंपनियों को (एवं विविधीकृत और विविध कंपनियों को भी) निस्तेज पूँजी बाजार में अधिकतम क्षति पहुँची। केवल आस्ति वित्त कंपनियाँ ही अधिक लाभ वृद्धि बनाये रख सकीं। सभी कार्यकलाप समूहों में स्थित कंपनियों की लाभप्रदता 2011-12 में निम्नतर रही (विवरण 2)।

2. कुल देयताओं में डिबेंचरों का अंश घटा

चयनित वित्तीय और निवेश कंपनियाँ संकट के वर्षों के दौरान जो निम्न स्थितियाँ थीं उनसे 2010-11 और 2011-12 में अपनी संवृद्धि के पथ पर पुनः वापस लौटीं। कुल आस्तियों में 2010-11 में विद्यमान 29.8 प्रतिशत वृद्धि के शीर्ष पर 2011-12 में 28.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। 2010-11 के दौरान विस्तार को विशेष रूप से बैंकों से उधार राशियों में उच्चतर वृद्धि से सहायता मिली। उधार राशियों का अंश जो वित्तीय कंपनियों की कुल देयताओं का प्रमुख भाग है, 63.3 प्रतिशत³ के चरम पर पहुँचा तथा ऋण-ईक्विटी अनुपात मार्च 2011 की समाप्ति पर 147.2 तक बढ़ा (चार्ट 2 तथा विवरण 2 और 3)। चयनित कंपनियों द्वारा उधारों की वृद्धि दर 2011-12



³ चयनित कंपनियों की लेखांकन अवधि के अंत में विद्यमान स्थिति से संबंधित है

में कम हुई और वह कुल देयताओं का 62.9 प्रतिशत बनी। ऋण-ईक्विटी अनुपात मार्च 2012 की समाप्ति पर घटकर 119.8 प्रतिशत हुआ। वित्त के स्रोत के रूप में डिबेंचरों का महत्व पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा, पर 2011-12 के अंत में उनका अंश निम्नतर था।

‘शेयर व्यापार और निवेश धारण’ कंपनियों के लिए ‘स्वाधिकृत निधियाँ’ अर्थात् शेयर पूँजी और प्रारक्षित निधियाँ और अधिशेष, देयताओं का काफी उच्चतर अंश बनती हैं। तथापि, उधारों के अंश में सहवर्ती वृद्धि के साथ पिछले दो वर्षों में उसका अंश नीचे आया है। ‘ऋण वित्त’ और ‘आस्ति वित्त’ कंपनियों के लिए कुल देयताओं में ‘स्वाधिकृत निधियों’ ने लगभग 15 से 25 प्रतिशत अंशदान किया तथा उधार राशियों का अंश काफी अधिक था। इन समूहों द्वारा डिबेंचरों के माध्यम से उधारों का अंश बैंक उधारों के अंश में तदनुरूपी बढ़ोतरी के साथ 2011-12 में कम हुआ।

3. आस्ति संरचना ऋणों और अग्रिमों की ओर अधिक झुकी


चयनित कंपनियों की आस्तियों के स्वरूप ने यह दर्शाया कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान निवेशों का अंश क्रमिक रूप से घटा है क्योंकि ऋणों और अग्रिमों ने उसे प्रतिस्थापित किया है (चार्ट 3 और विवरण 4)। ऋणों और अग्रिमों का अंश 2011-12 में कुल निवल आस्तियों का लगभग दो-तिहाई भाग रहा।

अधिकांश कार्यकलाप समूहों में चयनित कंपनियों के मामले में एक व्यावसायिक मॉडल के रूप में ऋण के वित्तपोषण की ओर अंतरण देखा गया। ‘शेयर व्यापार और निवेश’ कंपनियों के लिए कुल आस्तियों में निवेशों का अंश 2010-11 में विद्यमान 58.1 प्रतिशत से तेजी से गिरकर 2011-12 में 45.4 प्रतिशत हो गया जबकि ऋणों और अग्रिमों के अंश में तदनुरूपी वृद्धि हुई। इसी प्रकार, ऋण वित्त कंपनियों के लिए कुल आस्तियों में निवेशों का अंश 2008-09 में विद्यमान 21.2 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 10.3 प्रतिशत हुआ जबकि ऋणों और अग्रिमों का अंश और बढ़ गया।

4. व्यवसाय के विस्तार में बाह्य स्रोतों का महत्व और बढ़ा

जैसा कि चयनित कंपनियों की देयता संरचना में प्रतिबिंबित हुआ, व्यवसाय के विस्तार के लिए बाह्य स्रोतों (अर्थात् आंतरिक रूप से उत्पन्न निधियों से इतर) पर उनकी निर्भरता हाल की अवधि में बढ़ी (विवरण 5)। निम्नतर लाभप्रदता संभवतः इसके लिए कारण थी।

‘शेयर व्यापार और निवेश धारण’ में लिप्त कंपनियों ने, जो प्रायः अपने व्यवसाय का निधीयन अधिकांशतः लाभों के पुनर्निवेश द्वारा किया करती थीं, पिछले दो वर्षों में अपने स्रोतों के स्वरूप में परिवर्तन किया। बाजार और उधारों से जुटाई गई पूँजी 2010-11 और 2011-12 में निधीयन का 70-75 प्रतिशत थी। ‘ऋण वित्त’ और ‘आस्ति वित्त’ कंपनियों के



मामले में वित्तपोषण का व्यापक स्वरूप वही रहा, परंतु बैंकेतर स्रोतों से उधारों का अंश बढ़ गया।

5. ऋण वित्तपोषण प्रधान कार्यकलाप बना

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, चयनित वित्तीय और निवेश कंपनियाँ अपने व्यवसाय का विस्तार अधिकांशतः उधार के मार्ग से करती रही हैं। इस प्रकार, निधियों के कुल प्रयोगों में नये निवेशों का अंश वर्षों से कम हुआ है जो 2007-08 में विद्यमान 32.7 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 4.7 प्रतिशत हो गया है। तदनु रूप, वृद्धिशील ऋणों का अंश 2007-08 के 56.6 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 92.7 प्रतिशत हुआ है (विवरण 6)।

‘शेयर व्यापार और निवेश’ कंपनियों की निधियों के प्रयोगों के स्वरूप में अलग-अलग वर्षों में व्यापक रूप से घट-बढ़ रही। 2011-12 के दौरान, निवेश अभिनियोजित निधियों

का 29.7 प्रतिशत रहे जबकि ऋणों और अग्रिमों का अंश 50.1 प्रतिशत रहा।

6. समापन टिप्पणियाँ

चयनित 1,342 गैर-सरकारी वित्तीय और निवेश कंपनियों के समग्र परिणामों से यह देखा गया कि वर्ष 2011-12 के दौरान उनकी आय में एक उच्चतर दर से वृद्धि हुई, फिर भी व्यय में वृद्धि उससे भी उच्चतर थी। इसके परिणामस्वरूप उक्त कंपनियों के परिचालन लाभ एवं निवल लाभ एक निम्नतर दर से बढ़े और लाभप्रदता घटी। उधारों का अंश जो देयताओं का एक प्रमुख भाग है, 5-वर्षीय अवधि में बढ़ा, जबकि आस्तियों की ओर ऋणों और अग्रिमों की प्रमुखता में वृद्धि हुई। कंपनियाँ विस्तार के लिए मुख्य रूप से बाह्य स्रोतों पर लगातार निर्भर रहीं तथा अभिनियोजन मुख्य रूप से ऋणों और अग्रिमों में था।

विवरण 1: वित्तीय और निवेश कंपनियों की चयनित मदों की वृद्धि दरें : 2007-08 से 2011-12 तक										
(प्रतिशत)										
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
मद	सभी कार्यकलाप					शेयर व्यापार और निवेश धारण				
1. वित्तीय आय	52.9	19.9	10.0	23.8	29.5	26.3	-5.0	40.1	8.6	3.5
जिसमें से : प्राप्त ब्याज	43.8	30.8	14.1	36.2	51.0	33.8	18.2	-7.3	28.0	19.1
2. कुल आय	52.6	20.8	9.5	22.9	29.1	64.0	-6.3	41.5	9.6	3.5
3. कुल व्यय	45.4	33.4	2.2	14.2	37.9	35.1	-4.2	-6.6	7.3	13.5
4. ब्याज भुगतान	45.9	40.0	1.8	25.9	66.2	37.4	-7.1	-2.3	27.8	22.2
5. कर्मचारियों का पारिश्रमिक	46.3	14.0	12.1	11.1	16.4	13.0	-4.4	-4.1	22.6	17.4
6. परिचालन लाभ (ईबीडीटी)	66.7	-5.7	32.3	47.3	12.0	73.7	-5.6	81.2	9.4	-5.3
7. निवल लाभ	55.6	-7.9	32.2	56.0	9.4	79.5	-14.8	92.2	9.4	-6.8
8. प्रतिधारित लाभ	63.6	-12.5	33.3	76.1	3.6	93.2	-30.0	94.1	13.7	-9.3
9. निवेश @	47.5	20.6	2.3	25.6	6.6	41.5	1.3	8.2	24.7	7.9
10. कुल निवल आस्तियाँ @	39.8	15.8	12.4	29.8	28.3	23.5	6.2	3.2	14.1	12.6
11. उधार @	35.7	13.8	14.2	37.6	36.3	-17.3	-6.9	10.3	48.3	7.6
जिनमें से : बैंकों से उधार @	27.6	17.8	8.7	57.2	21.4	-53.5	14.5	8.2	37.9	10.3
	ऋण वित्त					आस्ति वित्त				
1. वित्तीय आय	57.1	27.8	4.6	32.4	43.1	20.8	15.0	19.8	28.8	53.3
जिसमें से : प्राप्त ब्याज	54.5	36.0	16.8	36.3	54.0	39.5	-13.2	156.2	55.7	55.1
2. कुल आय	34.9	28.4	5.1	29.9	43.9	41.4	23.4	8.5	30.2	50.3
3. कुल व्यय	40.4	43.9	1.6	16.9	51.1	35.5	31.2	10.1	17.8	51.1
4. ब्याज भुगतान	43.2	44.7	1.5	25.9	72.6	40.0	35.2	4.9	29.3	73.0
5. कर्मचारियों का पारिश्रमिक	41.9	13.7	14.8	15.7	30.2	44.9	25.2	15.0	25.3	35.8
6. परिचालन लाभ (ईबीडीटी)	46.2	-8.3	14.0	89.1	23.7	59.9	-33.8	84.0	60.8	63.7
7. निवल लाभ	-4.6	-8.6	10.5	100.9	24.9	53.4	-4.3	30.2	92.6	59.3
8. प्रतिधारित लाभ	-15.2	-7.2	8.0	143.4	13.7	78.2	1.6	21.2	102.1	62.4
9. निवेश @	32.0	42.7	-7.9	29.2	6.6	41.5	5.5	4.6	66.8	-82.0
10. कुल निवल आस्तियाँ @	45.6	18.2	11.3	35.0	35.5	18.5	5.9	25.4	31.2	24.7
11. उधार @	45.5	13.4	15.5	38.4	41.9	17.9	9.4	41.2	33.2	26.3
जिनमें से : बैंकों से उधार @	26.3	18.2	7.2	52.8	22.9	-6.8	-39.2	43.5	107.1	21.4
	विविधीकृत					विविध				
1. वित्तीय आय	106.3	7.8	-10.5	26.9	11.6	71.5	19.4	15.5	5.3	-6.9
जिसमें से : प्राप्त ब्याज	-9.9	-6.7	-47.2	68.6	41.4	-19.9	-43.6	-5.2	37.8	16.1
2. कुल आय	82.0	6.8	-12.2	24.5	7.9	64.3	21.1	14.3	6.4	-10.0
3. कुल व्यय	121.9	17.9	-16.4	22.9	19.4	54.8	25.3	5.0	5.9	-1.4
4. ब्याज भुगतान	27.2	10.1	-32.4	55.1	115.0	95.9	41.4	11.6	-0.8	21.4
5. कर्मचारियों का पारिश्रमिक	24.2	40.8	4.1	40.9	-1.8	57.2	16.3	11.4	3.4	-2.9
6. परिचालन लाभ (ईबीडीटी)	11.7	-28.1	32.2	30.1	-22.8	84.1	5.3	43.2	0.4	-27.8
7. निवल लाभ	-1.6	-48.9	106.8	26.2	-9.1	96.0	8.2	43.1	37.4	-56.8
8. प्रतिधारित लाभ	-21.3	-54.8	151.3	34.1	2.3	101.5	7.8	73.5	74.4	-133
9. निवेश @	16.0	-11.8	-28.7	58.8	-24.5	224.6	-19.6	45.0	1.3	7.8
10. कुल निवल आस्तियाँ @	11.0	4.9	-14.2	21.1	1.9	92.9	20.6	21.8	16.0	-0.4
11. उधार @	13.4	1.9	-31.0	-3.2	9.9	105.5	24.4	1.9	0.4	0.6
जिनमें से : बैंकों से उधार @	30.8	12.7	55.9	1.1	-30.1	155.9	30.4	2.2	74.0	-5.9

@ : पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, के लिए समायोजित।

विवरण 2: चयनित वित्तीय अनुपात - वित्तीय और निवेश कंपनियाँ : 2007-08 से 2011-12 तक										
(प्रतिशत)										
मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	सभी कार्यकलाप					शेयर व्यापार और निवेश धारण				
1. निवल लाभों की तुलना में लाभांश	13.8	19.7	24.5	24.5	28.4	7.5	23.0	32.6	26.2	26.7
2. वित्तीय आय की तुलना में परिचालन लाभ	35.9	27.6	31.4	33.4	28.5	70.5	63.7	69.0	61.0	48.4
3. कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ	4.9	2.4	2.6	2.6	2.3	22.9	5.2	6.3	5.1	4.1
4. निवल मालियत की तुलना में निवल लाभ	10.5	7.8	8.5	9.3	7.9	11.4	7.1	8.7	8.3	6.6
5. ईक्विटी की तुलना में कर्ज	83.5	106.2	114.5	147.2	119.8	10.3	8.8	11.5	19.2	32.6
	ऋण वित्त					आस्ति वित्त				
1. निवल लाभों की तुलना में लाभांश	32.6	18.9	21.1	24.3	27.9	17.0	22.0	27.4	14.0	8.7
2. वित्तीय आय की तुलना में परिचालन लाभ	20.9	22.1	26.7	30.4	25.4	25.1	14.4	20.2	29.5	26.6
3. कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ	1.2	1.7	1.9	2.0	1.9	2.9	1.6	1.5	2.6	2.6
4. निवल मालियत की तुलना में निवल लाभ	5.7	6.7	8.1	9.6	9.0	11.3	7.6	10.3	17.6	15.8
5. ईक्विटी की तुलना में कर्ज	177.3	158	180.4	244.5	199.4	268	240.7	342	263	125.7
	विविधकृत					विविध				
1. निवल लाभों की तुलना में लाभांश	39.4	14.4	22.9	21.4	9.5	10.8	16.9	22.5	32.9	125.5
2. वित्तीय आय की तुलना में परिचालन लाभ	19.7	16.1	18.0	51.9	14.0	36.4	27.6	33.6	21.8	17.0
3. कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ	6.3	1.1	1.4	5.1	3.2	6.2	3.3	3.5	2.0	1.6
4. निवल मालियत की तुलना में निवल लाभ	8.1	3.1	4.0	8.5	5.9	17.5	16.4	10.0	6.8	3.2
5. ईक्विटी की तुलना में कर्ज	39.1	21.5	61.4	3.0	14.8	41.9	108.6	34.5	10.6	10.3

विवरण 3: चयनित वित्तीय और निवेश कंपनियों की देयता संरचना : 2007-08 से 2011-12 तक										
(प्रतिशत)										
पूँजी और देयताएँ	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	सभी कार्यकलाप					शेयर व्यापार और निवेश धारण				
क. शेयर पूँजी	11.4	7.8	7.7	8.3	8.4	20.3	18.4	13.8	14.7	14.4
ख. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	22.7	22.8	22.6	19.4	20.9	52.1	54.6	58.8	46.7	47.0
ग. उधार	56.5	60.5	58.8	63.3	62.9	21.5	19.6	19.4	28.2	29.9
जिनमें से, (i) डिबेंचर®	17.3	17.8	19.7	22.3	15.8	3.4	3.5	6.8	8.5	7.9
(ii) बैंक उधार	20.1	27.0	22.9	28.6	29.3	3.7	6.3	4.3	10.1	10.5
घ. व्यापारिक देनदारियाँ और अन्य चालू देयताएँ	7.6	5.3	9.3	7.2	5.7	4.6	6.3	5.5	8.2	7.0
जिनमें से, विविध लेनदार	3.3	1.6	3.3	2.8	2.1	1.4	1.0	2.3	2.1	2.8
ड. अन्य देयताएँ	1.8	3.6	1.5	1.7	2.1	1.5	1.2	2.6	2.2	1.6
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	ऋण वित्त					आस्ति वित्त				
क. शेयर पूँजी	11.0	6.1	6.6	7.0	6.6	1.9	10.1	2.3	1.5	1.2
ख. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	10.3	19.0	17.3	14.0	14.4	14.2	10.4	12.7	12.5	15.5
ग. उधार	72.1	66.0	69.0	73.4	72.5	71.1	70.6	77.8	79.7	78.6
जिनमें से, (i) डिबेंचर®	21.4	20.0	22.5	26.1	18.4	35.7	40.5	40.3	30.3	19.2
(ii) बैंक उधार	25.0	28.1	26.4	33.5	33.8	22.4	16.2	25.2	38.3	48.8
घ. व्यापारिक देनदारियाँ और अन्य चालू देयताएँ	4.8	3.7	5.8	3.9	4.3	11.2	8.0	6.3	5.6	3.4
जिनमें से, विविध लेनदार	1.3	1.2	1.4	1.0	1.3	2.9	3.5	2.7	2.4	0.8
ड. अन्य देयताएँ	1.9	5.2	1.3	1.7	2.2	1.6	0.9	0.9	0.7	1.4
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

@ : इसमें निजी तौर पर स्थापित डिबेंचर शामिल हैं

विवरण 3: चयनित वित्तीय और निवेश कंपनियों की देयता संरचना : 2007-08 से 2011-12 तक										
(प्रतिशत)										
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पूँजी और देयताएँ	विविधीकृत					विविध				
क. शेयर पूँजी	18.4	6.4	23.1	17.4	9.3	7.4	5.1	8.4	18.3	26.8
ख. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	32.4	28.2	13.0	45.0	44.8	27.8	15.0	26.1	22.7	22.7
ग. उधार	29.3	43.3	50.1	25.5	23.4	45.4	69.9	36.0	13.5	17.1
जिनमें से, (i) डिबेंचर®	0.6	5.9	20.8	0.0	0.0	8.3	15.6	9.0	1.4	0.8
(ii) बैंक उधार	21.6	25.7	21.0	21.0	12.2	25.3	42.4	20.0	5.5	7.4
घ. व्यापारिक देनदारियाँ और अन्य चालू देयताएँ	16.8	20.6	12.2	10.6	21.5	17.4	8.3	27.2	44.1	31.3
जिनमें से, विविध लेनदार	10.9	2.4	5.3	7.0	13.6	12.7	3.4	12.2	24.2	17.1
ड. अन्य देयताएँ	3.1	1.4	1.7	1.6	1.0	2.0	1.6	2.3	1.4	2.2
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

@ : इसमें निजी तौर पर स्थापित डिबेंचर शामिल हैं

विवरण 4: चयनित वित्तीय और निवेश कंपनियों की आस्ति संरचना : 2007-08 से 2011-12 तक										
(प्रतिशत)										
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आस्तियाँ	सभी कार्यकलाप					शेयर व्यापार और निवेश धारण				
क. नकदी और बैंकों में जमा शेष	7.5	8.8	10.8	7.7	6.4	3.3	7.8	4.3	8.4	7.8
जिनमें से, बैंकों के पास जमाराशियाँ	7.3	8.7	10.5	7.5	6.2	3.2	7.8	4.2	8.4	7.4
ख. निवेश	28.6	22.9	22.8	18.6	16.9	64.7	58	66.1	58.1	45.4
ग. प्राप्य राशियाँ	57.1	64.5	61.3	69.4	71.8	23.4	20.5	20.0	25.6	38.0
जिनमें से, (i) ऋण और अग्रिम	51.4	60.9	57.8	66.0	67.3	20.7	16.2	17.4	21.9	34.6
(ii) विविध देनदार	4.4	2.0	1.9	1.9	1.3	1.4	3.4	1.5	2.0	1.4
घ. स्टॉक	3.9	2.4	2.2	1.8	2.2	6.1	11.5	4.5	4.1	5.5
जिनमें से, औद्योगिक प्रतिभूतियाँ	2.5	2.3	1.9	1.5	1.7	6.1	11.4	4.0	3.8	5.4
ड. निवल अचल आस्तियाँ	1.7	1.2	1.5	1.4	1.8	1.9	1.0	3.6	1.7	1.8
च. अन्य आस्तियाँ	1.2	0.2	1.5	1.1	1.0	0.6	1.3	0.6	2.1	1.5
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	ऋण वित्त					आस्ति वित्त				
क. नकदी और बैंकों में जमा शेष	4.6	6.3	6.7	4.7	4.7	3.6	10.1	11.1	6.6	7.4
जिनमें से, बैंकों के पास जमाराशियाँ	4.5	6.2	6.4	4.5	4.5	3.4	9.7	10.8	6.4	7.3
ख. निवेश	20.4	21.2	17.4	11.9	10.3	5.3	4.6	4.1	4.6	0.4
ग. प्राप्य राशियाँ	67.7	70.4	71.2	80.3	81.7	88.1	80.2	81.8	86.2	85.8
जिनमें से, (i) ऋण और अग्रिम	65.6	68.8	68.6	78.3	79.5	87.1	74.1	79.5	85.5	57.1
(ii) विविध देनदार	0.8	0.3	1.1	0.4	0.9	0.3	0.5	0.2	0.2	0.5
घ. स्टॉक	4.9	1.1	2.0	1.4	1.5	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2
जिनमें से, औद्योगिक प्रतिभूतियाँ	2.1	1.0	1.9	1.0	1.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
ड. निवल अचल आस्तियाँ	0.8	0.8	1.0	0.9	1.1	2.4	3.8	2.6	2.0	6.0
च. अन्य आस्तियाँ	1.6	0.2	0.2	0.8	0.7	0.5	0.9	0.1	0.3	0.1
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	विविधीकृत					विविध				
क. नकदी और बैंकों में जमा शेष	14.3	3.3	17.5	18.6	22.6	26.7	20.4	31.3	40.5	32.0
जिनमें से, बैंकों के पास जमाराशियाँ	13.8	3.2	17.3	18.5	22.6	26.5	20.1	31.2	40.5	31.8
ख. निवेश	31.7	9.6	24.6	7.6	5.8	24.9	7.8	23.5	18.3	25.8
ग. प्राप्य राशियाँ	34.8	81.3	42.6	61.5	41.6	43.9	68.7	41.3	30.2	28.0
जिनमें से, (i) ऋण और अग्रिम	25.4	73.1	32.3	47.1	12.5	16.9	58.8	34.2	6.6	11.6
(ii) विविध देनदार	6.0	1.1	7.1	12.1	24.8	24.9	8.4	5.2	19.8	10.9
घ. स्टॉक	5.2	3.7	11.7	1.9	5.7	0.8	0.4	1.2	3.7	0.8
जिनमें से, औद्योगिक प्रतिभूतियाँ	5.0	3.4	2.1	1.2	4.9	0.7	0.3	1.1	3.4	0.3
ड. निवल अचल आस्तियाँ	12.5	2.0	1.8	10.2	10.9	2.8	2.3	1.3	4.8	8.8
च. अन्य आस्तियाँ	1.5	0.2	0.0	0.1	13.4	0.9	0.6	0.3	2.5	4.6
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

विवरण 5: निधियों के स्रोत : 2007-08 से 2011-12										
वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	सभी कार्यकलाप					शेयर व्यापार और निवेश धारण				
निधियों के स्रोत										
आंतरिक स्रोत (निजी स्रोत)	21.5	32.7	-15.4	10.5	9.8	103.8	57.9	-89.6	29.4	25.0
क. चुकता पूँजी	1.8	0.4	0.6	0.1	0.1	4.0	0.0	0.0	0.1	0.0
ख. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	19.2	11.8	5.5	9.5	6.9	101.9	64.0	-110.8	29.2	24.0
ग. प्रावधान	0.5	20.5	-21.6	1.0	2.8	-2.1	-6.1	21.2	0.1	0.9
जिनमें से : मूल्यहास प्रावधान	-0.1	0.6	0.2	0.1	0.5	-0.9	0.7	-0.7	0.1	0.8
बाह्य स्रोत (निजी स्रोतों से इतर)	78.5	67.3	115.4	89.5	90.2	-3.8	42.0	189.6	70.6	75.0
घ. चुकता पूँजी	19.4	12.7	16.4	11.2	11.7	17.4	32.2	90.6	19.1	51.1
जिसमें से : शेयरों पर प्रीमियम	10.8	8.2	14.7	7.7	9.1	13.9	27.1	80.3	14.3	30.0
ङ. उधार	52.8	52.0	74.6	75.8	75.4	-24.3	-26.6	53.1	74.8	18.8
जिनमें से : बैंकों से उधार	15.4	28.9	18.8	45.7	23.3	-23.3	14.6	9.6	22.5	8.7
च. व्यापारिक देनदारियाँ और अन्य चालू देयताएँ	5.9	2.5	24.0	2.4	2.2	2.5	33.9	40.1	-23.7	-4.0
जिनमें से : विविध लेनदार	3.0	0.2	7.5	0.6	-3.2	1.9	-20.3	8.1	-9.4	-22
छ. अन्य	0.3	0.1	0.4	0.1	0.9	0.6	2.5	5.8	0.4	9.1
निधियों के कुल स्रोत	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	ऋण वित्त					आस्ति वित्त				
निधियों के स्रोत										
आंतरिक स्रोत (निजी स्रोत)	5.8	35.6	-30.5	8.6	7.6	8.6	21.0	6.4	8.0	16.8
क. चुकता पूँजी	2.2	0.4	1.1	0.1	0.2	0.1	3.7	0.0	0.0	0.0
ख. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	2.2	7.5	7.6	7.3	4.7	9.9	18.9	5.6	9.0	11.7
ग. प्रावधान	1.4	27.7	-39.1	1.3	2.8	-1.4	-1.6	0.9	-1.0	5.1
जिनमें से : मूल्यहास प्रावधान	0.1	0.4	0.2	0.1	0.2	-2.2	3.0	-0.5	-0.9	3.2
बाह्य स्रोत (निजी स्रोतों से इतर)	94.2	64.4	130.5	91.4	92.4	91.4	79.0	93.6	92.0	83.2
घ. चुकता पूँजी	18.9	11.6	14.6	9.9	6.8	3.6	54.6	0.1	2.9	9.6
जिसमें से : शेयरों पर प्रीमियम	6.0	7.9	13.7	6.7	6.6	3.1	0.0	0.0	2.3	9.2
ङ. उधार	72.7	49.0	105.8	78.7	81.5	71.5	109.1	112.7	84.5	80.2
जिनमें से : बैंकों से उधार	21.2	27.1	20.4	44.7	23.9	-10.8	-188.7	37.9	84.4	42.1
च. व्यापारिक देनदारियाँ और अन्य चालू देयताएँ	2.6	3.7	9.9	2.8	4.1	16.3	-84.7	-19.2	4.6	-6.6
जिनमें से : विविध लेनदार	0.2	2.5	1.3	1.6	0.7	5.1	-18.1	1.5	1.6	-8.5
छ. अन्य	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
निधियों के कुल स्रोत	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	विविधीकृत					विविध*				
निधियों के स्रोत										
आंतरिक स्रोत (निजी स्रोत)	17.3	14.4	-10.0	20.4	143.2	12.4	16.4	16.9	15.5	151.1
क. चुकता पूँजी	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0
ख. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	28.2	15.9	-6.8	24.9	159.8	11.3	14.1	14.6	14.4	-80.2
ग. प्रावधान	-10.9	-2.0	-3.1	-4.5	-16.7	1.0	2.2	2.3	1.0	231.3
जिनमें से : मूल्यहास प्रावधान	-8.6	8.1	0.3	-3.9	21.2	0.7	1.1	0.8	3.7	223.0
बाह्य स्रोत (निजी स्रोतों से इतर)	82.7	85.6	110.0	79.6	-42.4	87.6	83.6	83.1	84.5	-51.1
घ. चुकता पूँजी	1.1	6.7	-0.9	116.2	0.0	26.9	8.2	15.5	38.3	1171.9
जिसमें से : शेयरों पर प्रीमियम	1.0	6.4	-0.7	66.3	0.0	22.3	5.3	12.9	26.4	334.8
ङ. उधार	40.3	16.5	139.9	-5.0	114.4	48.4	80.5	3.9	0.4	37.7
जिनमें से : बैंकों से उधार	77.3	58.2	-46.7	1.3	-283.3	32.0	58.1	2.5	17.1	-172.7
च. व्यापारिक देनदारियाँ और अन्य चालू देयताएँ	41.3	62.2	-29.0	-31.7	-157.6	11.4	-5.2	63.6	45.8	-1297.3
जिनमें से : विविध लेनदार	43.0	-1.6	-28.9	-20.6	20.5	8.4	-1.6	19.2	-0.8	-2877.3
छ. अन्य	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.1	0.0	36.9
निधियों के कुल स्रोत	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

*: कुछ प्रतिशत छोटे हर के कारण बहुत अधिक हैं।

विवरण 6: निधियों के उपयोग : 2007-08 से 2011-12 तक										
वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	सभी कार्यकलाप					शेयर व्यापार और निवेश धारण				
निधियों के उपयोग										
क. नकदी और बैंकों में जमा शेष	8.1	12.0	5.8	2.1	-0.1	-0.9	69.8	7.1	-17.5	-4.8
जिनमें से : बैंकों के पास जमा राशियाँ	8.1	11.7	4.5	1.9	-0.6	-1.1	69.8	6.7	-17.6	-8.2
ख. निवेश	32.7	27.8	5.3	16.6	4.7	102.6	14.1	147.2	93.8	29.7
जिनमें से : (क) सरकारी और अर्ध-सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.0	2.6	-5.8	-1.0	0.3	0.2	-9.3	3.2	-8.2	-2.4
(ख) म्यूचुअल फंड	12.1	11.3	-15.9	0.1	-1.2	60.4	27.8	-21.0	-14.8	-3.2
(ग) अन्य भारतीय कंपनियों के शेयर और डिबेंचर	20.6	12.9	-4.1	10.5	3.4	32.1	53.8	82.5	74.0	16.7
ग. प्राप्य राशियाँ	63.1	57.6	86.1	79.0	91.9	58.6	14.9	-121.4	20.5	55.1
जिनमें से : (क) ऋण और अग्रिम	56.6	54.0	77.6	76.3	92.7	54.1	1.0	-130.0	22.1	50.1
(ख) विविध देनदार	4.9	-0.4	8.2	2.1	-0.3	1.8	18.2	3.2	3.5	-1.4
घ. स्टॉक	-4.2	1.8	1.9	0.9	1.3	-52.2	8.6	55.3	-4.1	14.9
जिनमें से : औद्योगिक प्रतिभूतियाँ	-6.4	6.0	-0.6	0.6	0.6	-52.3	41.6	44.2	-3.9	14.4
ड. सकल अचल आस्तियाँ	-0.4	0.6	1.4	1.2	1.7	-7.7	-8.1	10.7	3.5	4.0
च. अन्य आस्तियाँ	0.6	0.2	-0.5	0.3	0.4	-0.4	0.6	1.1	3.9	1.1
निधियों के कुल उपयोग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ऋण वित्त										
आस्तित्व वित्त										
निधियों के उपयोग										
क. नकदी और बैंकों में जमा शेष	4.8	-7.3	-8.8	2.9	-0.2	-20.1	55.5	24.1	0.1	17.3
जिनमें से : बैंकों के पास जमा राशियाँ	4.7	-7.6	-11.0	-0.4	-0.4	-19.4	55.6	24.3	0.0	17.0
ख. निवेश	15.9	39.7	-17.1	10.4	2.4	10.3	4.3	0.9	7.8	-9.1
जिनमें से : (क) सरकारी और अर्ध-सरकारी प्रतिभूतियाँ	-0.1	4.1	-8.6	-0.4	0.7	0.2	2.8	0.3	0.0	-0.1
(ख) म्यूचुअल फंड	1.9	15.0	-13.8	2.3	-1.0	-1.6	11.0	-2.9	1.9	0.2
(ग) अन्य भारतीय कंपनियों के शेयर और डिबेंचर	27.0	12.2	-4.9	5.4	2.6	15.1	-0.2	0.7	0.9	-0.2
ग. प्राप्य राशियाँ	71.6	65.2	129.7	84.5	97.2	110.4	36.1	75.3	92.6	74.6
जिनमें से : (क) ऋण और अग्रिम	70.6	63.2	122.7	82.8	95.8	109.0	-52.3	78.3	94.8	113.6
(ख) विविध देनदार	-0.9	-0.2	4.0	0.1	0.2	0.3	3.5	-0.8	0.1	2.0
घ. स्टॉक	6.0	1.2	-4.8	1.3	-0.1	0.3	2.1	-0.1	-0.3	-1.4
जिनमें से : औद्योगिक प्रतिभूतियाँ	1.9	4.8	-5.5	0.8	-0.8	0.1	-1.1	0.1	-0.3	-1.0
ड. सकल अचल आस्तियाँ	0.4	1.1	1.9	0.8	0.4	-1.0	0.2	-0.3	-0.2	18.5
च. अन्य आस्तियाँ	1.3	0.1	-0.9	0.0	0.2	0.0	1.7	0.0	0.0	0.1
निधियों के कुल उपयोग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
विविधीकृत										
विविध*										
निधियों के उपयोग										
क. नकदी और बैंकों में जमा शेष	-33.8	-51.8	-6.1	-9.3	-348.5	30.3	70.7	27.5	31.4	-903.2
जिनमें से : बैंकों के पास जमा राशियाँ	-35.5	-48.1	-5.6	-7.3	-346.2	30.4	70.4	27.3	31.4	-884.2
ख. निवेश	50.1	-25.7	61.3	16.8	-101.5	35.8	-11.1	41.3	1.7	694.1
जिनमें से : (क) सरकारी और अर्ध-सरकारी प्रतिभूतियाँ	-0.1	-1.5	32.4	0.2	-2.3	0.0	0.3	0.1	-0.3	38.2
(ख) म्यूचुअल फंड	39.9	16.0	-0.9	0.4	-36.4	10.4	-7.6	-23.3	-18.0	-31.6
(ग) अन्य भारतीय कंपनियों के शेयर और डिबेंचर	0.1	-93.0	29.7	13.1	-62.9	1.9	10.1	-11.7	3.9	-890.4
ग. प्राप्य राशियाँ	31.7	147.5	102.8	106.9	358.3	32.8	37.8	27.6	54.4	-99.5
जिनमें से : (क) ऋण और अग्रिम	8.6	25.6	124.9	95.8	202.3	11.8	43.0	14.6	9.5	734.2
(ख) विविध देनदार	14.5	0.5	-35.5	9.8	279.5	20.6	-6.4	16.7	44.8	-1113.1
घ. स्टॉक	18.1	27.8	-59.0	-14.9	112.1	-0.4	1.3	3.8	6.9	5.1
जिनमें से : औद्योगिक प्रतिभूतियाँ	-0.3	29.5	-0.1	-15.1	123.5	-0.5	1.2	3.8	8.2	-17.1
ड. सकल अचल आस्तियाँ	38.2	0.9	0.9	0.7	-25.0	1.6	0.8	-0.2	7.0	126.7
च. अन्य आस्तियाँ	-4.3	1.4	0.0	-0.2	103.8	-0.1	0.4	0.0	-1.3	276.7
निधियों के कुल उपयोग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

*: कुछ प्रतिशत छोटे हर के कारण बहुत अधिक हैं।